



दिनांक: 12.01.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा किया गया 25000/- रु0

पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा वाँछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम, सहारनपुर के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0स0 445/2009 धारा 406 भादवि वादी श्री संजय जैन पुत्र गणपत राय निवासी कबाडी बाजार कक्कडगंज थाना कोतवाली नगर सहारनपुर द्वारा सोने के जेवर बनाने को दिये जाने तथा बदनियत द्वारा वापस न किये जाने पर दिनांक 18.09.2009 को अभियुक्त पुर्नव सावंत पुत्र प्रफुल्ल सावंत नि0 कक्कडगंज थाना कोतवाली नगर सहारनपुर मूल पता ग्राम नातिबपुर थाना खनाकुल जिला हुगली पश्चिम बंगाल के विरुद्ध पंजीकृत कराया था। तत्कालीन विवेचक द्वारा काफी तलाश किया परन्तु दस्तयाब नहीं हुआ। जिसके विरुद्ध मा0न्यायालय से NBW/ धारा 82/83 सीआरपीसी प्राप्त कर मफरुरी में दिनांक 08.04.2010 को आरोप पत्र स0- 123/10 मा0न्यायालय प्रेषित किया गया था। अभियुक्त उपरोक्त के लगातार फरार होने पर इसके विरुद्ध 5000/- रु का पुरुष्कार घोषित हुआ जो वर्तमान में 25000/- रु है। माननीय न्यायालय से NBW प्राप्त कर तथा अभियुक्त की लोकेशन पश्चिम बंगाल में होने पर थाना हाजा पर गठित पुलिस टीम उ0नि0 इन्द्रजीत सिंह व है0का0 346 हरेन्द्र धामा को अभियुक्त के मूल पते ग्राम नातिबपुर थाना खनाकुल जिला हुगली पश्चिम बंगाल पर रवाना किया गया। अभियुक्त को पुलिस टीम की भनक मिलने पर अभियुक्त पश्चिम बंगाल से फरार हो गया। गोपनीय जानकारी के आधार पर महाराष्ट्र में होना पाया गया। पुलिस टीम द्वारा बिना देरी किये हवाई मार्ग से महाराष्ट्र के लिए रवाना हुए तथा अभियुक्त की लोकेशन के अनुसार महाराष्ट्र के थाना वालीव जिला पालघर पुलिस से सम्पर्क कर अभियुक्त के बारे में अवगत कराया गया। पुलिस टीम द्वारा मुम्बई पुलिस के सहयोग से अभियुक्त पुर्नव सावंत पुत्र प्रफुल्ल सावंत नि0 कक्कडगंज थाना कोतवाली नगर सहारनपुर मूल पता ग्राम नातिबपुर थाना खनाकुल जिला हुगली पश्चिम बंगाल को दिनांक 10.01.2023 को गिरफ्तार किया गया तथा मा0 न्यायालय वसई जिला पालघर मुम्बई(महाराष्ट्र) से ट्रांजिट रिमाण्ड लेकर थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर आज दिनांक 12.01.23 को आये। इससे पूर्व भी अभियुक्त को गिरफ्तार करने हेतु पुलिस टीम भेजी गई थी लेकिन अभियुक्त को पुलिस की भनक लग जाने के कारण हर बार फरार हो जाता था। ईनामी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- पुर्नव सावंत पुत्र प्रफुल्ल सावंत नि0 कक्कडगंज थाना कोतवाली नगर सहारनपुर मूल पता ग्राम नातिबपुर थाना खनाकुल जिला हुगली पश्चिम बंगाल।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 इन्द्रजीत सिंह थाना को0नगर सहारनपुर।
2. है0का0 346 हरेन्द्र धामा थाना को0नगर सहारनपुर।



दिनांक:12.01.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 48 पच्चे देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशो के अनुपालन मे तथा क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे संदिग्ध व्यक्ति/वांछितो एवं अवैध नशे मे लिप्त अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री जसवीर सिंह कोतवाली गंगोह जिला सहारनपुर के कुशल नेतृत्व मे थाना गंगोह पुलिस टीम के द्वारा **अभियुक्त इमरान पुत्र यासीन निवासी ग्राम मंहगी थाना तीतरो जिला सहारनपुर** को 48 पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का कल्ब माल्टा सहित गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के जुर्म के सम्बन्ध मे थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 14/2023 धारा 63 Ex. Act पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को मा0 न्यायालय पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

इमरान पुत्र यासीन निवासी ग्राम मंहगी थाना तीतरो जिला सहारनपुर

बरामदगी-

48 पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का कल्ब माल्टा

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री अनिल कुमार, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- 2.का0 1059 अनुज राणा, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- 3.का0 1718 अंकित धामा, थाना गंगोह जिला सहारनपुर



दिनांक: 12.01.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा किया गया पोक्सो एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशो के अनुपालन मे तथा क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे संदिग्ध व्यक्ति/वांछितो/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री जसवीर सिंह थाना गंगोह जिला सहारनपुर के कुशल नेतृत्व मे थाना गंगोह पुलिस टीम के द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 527/2022 धारा 452/354घ भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट मे वांछित चल रहे **अभियुक्त अर्जुन पुत्र बाबूराम निवासी मोहल्ला नयाबांस अम्बेहटा थाना नकुड जिला सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को मा0 न्यायालय पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अर्जुन पुत्र बाबूराम निवासी मौहल्ला नयाबांस कस्बा अम्बैहटा थाना नकुड जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री शाहनवाज अहमद, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- 2.का0 2331 लवलेश राठी, थाना गंगोह जिला सहारनपुर



दिनांक:12.01.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम के कुल 39 माल मुकदमाती एवं कॉपीराइट एक्ट के कुल 740 डब्बे व 01 ड्रम मोबाइल ऑयल को कराया

गया नष्ट:-

अवगत कराना है कि मा० न्यायालय श्रीमान एसीजेएम प्रथम महोदय व एफटीसी प्रथम महोदय जनपद सहारनपुर के आदेश के अनुपालन में वर्ष 2021 व 2022 के आबकारी अधि० के 39 माल व मु०अ०स० 332/16 धारा 420 भादवि० व 63/65 कॉपीराइट एक्ट में बरामद 740 डब्बे व 01 ड्रम मोबाइल ऑयल व मु०अ०स० 174/18 धारा 376डी/452/504/506/354बी भादवि से सम्बन्धित माल एक किट व थर्मस को गठित कमेटी श्रीमान नायब तहसीलदार तहसील सदर सहारनपुर व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर प्रथम सहारनपुर व ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी सहारनपुर एवं प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात सहारनपुर एवं वरिष्ठ उपनिरीक्षक जावेदखान थाना कोतवाली देहात सहारनपुर, मालखाना मोहर्रिर लोकेन्द्र सिंह थाना कोतवाली देहात सहारनपुर की मौजूदगी मे थाना कोतवाली देहात के पीछे खाली पडी जगह में जेसीबी मशीन से गडढा खुदवाकर नष्ट किया गया ।

प्रेस नोट दिनांक 12.01.2023

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा एससी/एसटी एक्ट के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन मे चलाये जा रहे वांछित अपराधियो की गिरफ्तारी अभियान व अपराध की रोकथाम अभियान के दौरान श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के कुशल पर्यवेक्षण व श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय के नेतृत्व में दिनांक 12.01.2023 को उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार व का0 1716 अनुज तोमर द्वारा मु0अ0सं0 06/23 धारा 354,354बी,323 भादवि व 7/8 पोक्सो अधिनियम व 3(1)(w)(1) एससी/एसटी एक्ट के वांछित अभि0 अली शेर पुत्र महमूद निवासी ग्राम चौरादेव थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर हाल पता माजरा शरबतपुर थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर को भगवानपुर तिराहे से गिरफ्तार किया गया । आवश्यक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्या0 के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त:-

(1) अली शेर पुत्र महमूद निवासी ग्राम चौरादेव थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास:-

(1) मु0अ0सं0 06/23 धारा 354/354बी/323 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट व 3(1)w(1) एससी/एसटी एक्ट थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

(1) उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार

(2) का0 1716 अनुज तोमर

प्रेस नोट थाना देवबन्द सहारनपुर दिनांक 12.01.2023

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा ग्राम लालवाल मे सरकारी बारात घर से चोरी गयी खिडकियो के मुकदमे मे वांछित चल रहे अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

दिनांक 12/01/2023 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशो के अनुपालन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी देवबन्द महोदय के पर्यवेक्षण में संदिग्ध व्यक्ति/वांछितो/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं 0 24/ 2023धारा 379 भा0द0वि0 चालानी थाना देवबंद के वांछित अभियुक्तगण 1.संजय पुत्र धन्नीराम 2. प्रियांशु पुत्र कल्लू नि0गण ग्राम लालवाला थाना देवबन्द जिला सहारनपुर को गांव लालवाला से पहले स्थित शिव मन्दिर के पास से गिरफ्तार किया गया तथा जिनसे बारात घर की चोरी कि गयी 5 लोहे की खिडकिया बरामद हुई को जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगणो का नाम व पता –

- 1-संजय उर्फ भूत पुत्र धन्नीराम निवासी ग्राम लालवाला थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 2-प्रियांशु उर्फ गुल्ला पुत्र कल्लू निवासी ग्राम लालवाला थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम –

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री हृदय नारायण सिंह थाना देवबन्द सहारनपुर
- 2- उ0नि0 राजकुमार यादव थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 3- है0कां 979 0ज्ञानेन्द्र थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 4- है0कां 981 0निशान्त कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 5- कां 1606 0दीपक कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर